

欢迎来到南坎特伯雷

本区的交通事故大多牵涉疲劳驾驶、
高速失控(尤其在沙石路段)、 注意力分散、
或没有靠左行驶。

- 在沙石路段, 请降低车速 (低于时速70公里)
- 请专心开车 ; 如无法专心开车 · 请靠边停车
- 在驾驶时 · 包括在弯道行驶时 · 请保持靠左行驶。
- 当您感到睡意, 请尽快停车

दक्षिण कटरबरी में आपका स्वागत ह

इस क्षेत्र में सबसे अधिक दुर्घटना के कारण यहे इन्डर्स गाड़ी की गति न संभाल पाना विशेष रूप से पथरीला गते पर, नियंत्रण के नुस्खान शामिल है, ब्याकुलता या गाड़ी सही तरफ नहीं चलना।

- हमेशा रास्ते के लेफ्ट तरफ ही चलाइये और बैंड्स पर भी
- जब भी नींद लगे, गाड़ी बांध करदो ——, जल्द से जल्द
- पथरीला सरक पर गाड़ी धीमे चलाओ (म.र किलो मीट्रो या काम)
- अपने गाड़ी चलने पर ध्यान दीजिये वरना खरा कर दो।

Welcome to Mid South Canterbury

Most crashes in this area involve tired drivers, loss of control due to speed (especially on unsealed roads), distraction, or not keeping left on the road and/or in bends.

- Stay on the left on the road and through bends
- When you feel sleepy - Stop ASAP
- Drive slower on unsealed roads (70km/h or less)
- Stay focussed on your driving task or stop

Maligayang pagdating sa Mid South Canterbury

Karamihan ng mga aksidente sa lugar na ito ay dala ng pagod sa pagmamaneho, sobrang tulin ng pagmamaneho (lalo na sa mga kalsadang hindi pa sementado o aspaltado), hindi pagtutok sa pagmamaneho o kaya ay ang hindi pananatili sa kaliwa lalo na sa mga parte ng kalsadang paliko.

- Magmaneho sa kaliwang banda ng kalsada - tuwid man ang kalsada o paliko manatili sa kaliwa.
- Kapag ikaw ay inaantok - HUMINTO sa pinaka-agad na pagkakataon
- Magmaneho ng marahan sa mga kalsadang hindi pa aspaltado o sementado (70km/hour o mas marahan pa)
- Manating nakatutok ang atensyon sa pagmamaneho. Kung hindi ay huminto muna.

Coleridge

남켄터베리지역에 오신 것을 환영합니다.

지역내 대부분의 교통사고는 피곤한 상태에서의 운전, 과속으로 인한 차량통제실패(특히비포장도로에서) 운전부주의, 좌측레인에서 주행하지 않는 경우에 발생합니다.

- 2차선 이상 도로 및 커브에서 좌측레인에서 주행하십시오.
- 졸음이 오는 경우 즉시 정차하시고 휴식하십시오.
- 비포장도로 운전시 감속(70km이하) 하십시오.
- 운전에만 집중할 수 없는 상황에서는 정차하십시오.

To Christchurch

